PADAM COTTON YARNS LIMITED

CIN: L17112HR1994PLC033641

Regd. Office: 196, 1st Floor, G.T. Road,
Opp. Red Cross Market, Karnal- 132001
www.padamcotton.com, email: cspcyl6@gmail.com

BSE Ltd. 15th February, 2024

Department of Corporate Services Corporate Relationship Department Phiroze Jee Jeebhoy, 25th Floor, Dalal Street, Mumbai- 400001

Ref: Company Code No. 531395 PADAMCO

Sub: <u>Submission of Copies of Newspaper Publication of Notice Extraordinary General Meeting and E-Voting Information</u>

Dear Sir/Ma'am,

This letter is in reference to the captioned subject in this regard we are enclosing herewith copy of newspaper cuttings of publication of Notice of Extraordinary General Meeting and E-Voting Information to be held on Saturday, the 23rd day of March, 2024 at 11:30 a.m.

The above financial Results were published in the following Newspaper:

- 1. Financial Express dated 15th February, 2024 (Thursday) (English) published from New Delhi.
- 2. Jansatta dated 15th February, 2024 (Thursday) (Hindi) published from New Delhi.

Newspaper clippings are enclosed herewith.

This is for your information and record.

Kindly acknowledge receipt of the same.

Thanking you.

Yours Sincerely, For and behalf of Padam Cotton Yarns Limited

NEERAJ Digitally signed by NEERAJ CHUGH Date: 2024.02.15 16:00:39 +05'30'

Neeraj Chugh Company Secretary & Compliance Officer M. No.: A61326

Encl: As Above

FINANCIAL EXPRESS



Delhi-110018.

Dear Sir/ Ma'am

05180007118

50,000/-

ADITYA BIRLA HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Office- Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat – 362266 Branch Office - D-17, Basement, Sector 3, Noida, UP 201301

1. SARABJEET KAUR Upper Ground Floor, Property No. M-47-B, Khasra No. 56, Gali No. 4 New Mahabir Nagar, Village-Nangli Jalib, West Delhi, New Delhi, Delhi-110018. 2. SARABJEET KAUR M-47/B, Gali No. 4, New Mahabir Nagar, Tilak Nagar S.O, West Delhi

Subject: Disclosure of Name, Address and Details of Legal Heirs of Late Gurmeet Singh. Reference: Loan Account Number: LNDEL0HL-05180007114 & LNDEL0HL-05180007118. We, M/s. Aditya Birla Housing Finance Limited, a company registered under the National Housing Bank Act, 1987 having it's Registered Office at Indian Rayon Compound, Veraval, Gujarat -362266 and it's branch office at Aditya Birla Housing Finance Limited, G-Corp Tech Park, 8th Floor, Ghodbunder Road, Next to Hyper City Mall, Thane [W] - 400 607 ("hereinafter referred to as "ABHFL") do hereby serves you the following notice for disclosure of details of the legal heirs of Late Gurmeet Singh. Further, Please refer to sanction of the loan facility availed by you which

was duly disbursed by ABHFL as per the terms and conditions of the respective sanction letter against the mortgage of immovable property (hereinafter referred to as the "Property") being all that piece and parcel of: Entire Upper Ground Floor Without Roof Rights Out Of Above Said Free-Hold Built-Up Southern (Three Side Open) Portion Of Property Bearing No. M-47-B, Area Measuring 100 Square Yards., Part Of Khasra No. 56, Situated In The Area Of Village Nangli Jalib, Delhi State, Delhi Now Colony Known As New Mahabir Nagar, Gali No. 4, New Delhi- 110018, Duly Fitted With Separate Meters & Connection Of Electricity, Water, & Common Sewer & Submersible Connections In Working Orders, With One Car & One Two Wheeler Parking Rights In Stilt Of The Said Property, With Proportionate Rights In The Freehold Land

Underneath And With Common Right To Use Ingress & Egress, Common Staircase & Passage, Common Entrance, With All Its Fittings And Fixtures Installed Thereto, Including Wooden, Sanitary And Electrical, Etc, With All Its Rights, Interest, Deposits, Easements, Title, Options, Privileges, Appurtenances Attached Thereto Etc, And Which Is Bounded As Under:- East: Passage 30 Ft. Wide West: Passage 15 Ft. Wide North: Portion Of Plot No. 47 South: Passage 15 Ft. Wide. The details of Loan Facility are as follows:

Sanctioned Date of Date of Loan Loan List of Sanction Letter Agreement **Borrowers** Account No Amount LNDEL0HL-29,00,000/-05180007114 & 24.05.2018 09.04.2018 1. Gurmeet Singh LNDEL0HL-24.05.2018 09.04.2018 2. Sarabjeet Kaur

In this connection the aforesaid borrowers had executed the Loan Agreements dated 09.04.201 for availing the aforesaid Loan and accepted all the terms and conditions mentioned therein Further the Borrowers also agreed to make repayment of the said Loan facilities as per the repayment schedule In lieu of the loan agreement as executed, it was also agreed that the legal heirs of the Borrowers shall also be responsible for the liabilities and obligations as may arise in respect of the aforesaid Loan Facilities. Moreover, it was specifically agreed vide the said Loan Agreement that the Property shall not be discharged/released by ABHFL till such time all dues in respect of the Loan are fully repaid to the satisfaction of ABHFL and ABHFL consents to discharge/ release the Property in writing to the Borrowers.

Recently, it has been brought to the notice and knowledge of ABHFL that Gurmeet Singh one of the borrowers in lieu of aforesaid loan facility, has passed away, and you the addresses failed to intimate us about the same in due time. Under the given circumstances, we hereby request you to kindly disclose the Name, Address and

Details of any and all legal heirs, successors, administrators of Late Gurmeet Singh within 7 days of receipt of this notice. Upon your failure to provide the information in regard with details of any and all legal heirs, successors, administrators and details of any will or probate executed by her and in the event of breach of any or all terms and conditions of the Loan Agreement or Sanction Letter or any other documents executed by the Borrowers, the ABHFL shall be constrained to take any or all legal actions including enforcement of the Property mortgaged by the Borrowers in favour of the ABHFL under the relevant provisions of SARFAESI Act (The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002), only against the Borrowers and any and all legal heirs, successors, administrators of Late Gurmeet Singh the details of which may be available with the Bank at your cost and expense. Please be informed that in case you fail to furnish the above asked information of legal heirs of Late Gurmeet Singh within 7 days of the receipt of the said notice, it shall be deemed as there exists no legal heirs of Late Gurmeet Singh and the ABHFL shall proceed for enforcement of the property to recover the loan outstanding and in case there exists the legal heirs of Late Gurmeet Singh and you failed to furnish the information of legal heirs, it shall be deemed service to you the addressees as service to the any or all the legal heirs of Late Gurmeet Singh in any future communications of the ABHFL including notice under Section 13(2) of SARFAESI Act.

Authorized Officer Aditya Birla Housing Finance Limited, G-Corp Tech Park, 8th Floor, Ghodbunder Road, Next to Hyper City Mall, Thane [W] - 400 607 HDFC BANK

HDFC Bank Limited

Branch: The Capital Court, Munirka, Outer Ring Road, Olof Palme Marg, New Delhi-67 CIN L65920MH1994PLC080618, Website: www.hdfcbank.com

DEMAND NOTICE

(Act) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. Whereas the undersigned being the Authorised Officer of HDFC Bank Limited (erstwhile HDFC Limited having amalgamated with

Under Section 13 (2) of the Securitisation And Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002

HDFC Bank Limited by virtue of a Scheme of Amalgamation approved by Hon'ble NCLT-Mumbai vide order dated 17th March 2023) (HDFC) under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued Demand Notices under Section 13 (2) of the said Act, calling upon the Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) listed hereunder, to pay the amounts mentioned in the respective Demand Notice/s, within 60 days from the date of the respective Notice/s, as per details given below. The undersigned have, caused these Notices to be pasted on the premises of the last known respective addresses of the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s). Copies of the said Notices are available with the undersigned, and the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s), may, if they so desire, collect the respective copy from the undersigned on any working day during normal office hours..

In connection with the above, Notice is hereby given, once again, to the said Borrower(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s) to pay to HDFC, within 60 days from the date of publication of this Notice, the amounts indicated hereinbelow in their respective names, together with further interest @ 18% p.a. as detailed in the said Demand Notices from the respective dates mentioned below in column (c) till the date of payment and / or realisation, read with the loan agreement and other documents/writings, if any, executed by the said Borrower(s). As security for due repayment of the loan, the following Secured Asset(s) have been mortgaged to HDFC by the said Borrower (s) respectively...

Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) attention is invited to the provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured asset/s.

Sr. No.	Name of Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) / Guarantor	Total Outstanding Dues	Date of Demand Notice	Description of Secured Asset(s) / Immovable Property (ies)			
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)			
1.	MR. CHHABRA PRASHANT DEEPAK MR CHHABRA DEEPAK RAJENDRAPAUL MRS CHHABRA SHEENAM PRASHANT	Rs. 5,63,16,650/- (Rupees Five Crore Sixty Three Lakh Sixteen Thousand Six Hundred Fifty Only) Due as on 31-DEC-2023*	12-JAN- 2024	Residential Built-up-House bearing No.22, Road No. M-1, measuring 420 Sq. Mtrs (502.32 Sq. Yds.) having covered area 8355 Sq. Ft. Approx. consisting of Basement, Ground Floor, First Floor and Second Floor situated in the residential colony known as DLF City Phase-II (earlier known as DLF Qutub Enclave Complex), Gurgaon (Haryana), in and around Village Sarhaul Tehsil & Dist. Gurgaon (Haryana), which is bounded as under: - EAST: PLOT NO. M-1/21 WEST: PLOT NO. M-1/23 NORTH: ROAD SOUTH: PLOT NO. M-3/5			

*with further interest @ 18% p.a. as applicable, incidental expenses, costs, charges etc incurred till the date of payment and / or realization. If the said Borrowers shall fail to make payment to HDFC as aforesaid, then HDFC shall proceed against the above Secured Assets / Immovable Properties under Section 13 (4) of the said Act and the applicable Rules entirely at the risk of the said Borrower(s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) as to the costs and consequences..

The said Borrower (s) / Legal Heir(s) / Legal Representative(s) are prohibited under the said Act to transfer the aforesaid Secured Assets / Immovable Properties, whether by way of sale, lease or otherwise without the prior written consent of HDFC. Any person who contravenes or abets contravention of the provisions of the Act or Rules made thereunder shall be liable for imprisonment and/or penalty as provided under the Act. For HDFC Bank Limited

Sd/-**Authorized Officer**

Regd. Office: HDFC Bank House, Senapati Bapat Marg, Lower Parel (West), Mumbai- 400020

PADAM COTTON YARNS LIMITED

(CIN: L17112HR1997PLC033641) Regd. Office: 196, 1st Floor, Opp. Red Cross Bhawan,

G.T. Road, Karnal- 132001, Haryana www.padamcotton.com Email: cspcyl6@gmail.com Tel: 8383858860

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ('EGM') of the Members of M/s Padam Cotton Yarns Limited will be held on Saturday, the 23" day of March, 2024 at 11:30 a.m. at Registered Office of the Company at 196, 1st Floor, G.T Road, Opp. Red Cross Market, Karnal- 132001 (Haryana), to transact the business mentioned in the Notice convening the Extraordinary of the Company In Compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations. 2015, the Company is providing E-voting facility to its members. to cast their vote electronically on the resolutions to be transacted at Extraordinary of the In compliance with the relevant circulars, the Notice of the Extraordinarycontaining, inter

alia, the Explanatory Statement thereon has been sent via email on Thursday, February 15, 2024, to all the Members of the Company. The aforesaid documents are available on the Company's website at www.padamcotton.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and is also available on the website of RTA, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., beetal@beetalfinancial.com.

https://www.padamcotton.com/images/pdf/Notice%20of%20EGM.pdf The members are informed that:

 The remote E-voting shall commence Wednesday, 20th March, 2024 at 10:00 a.m. and ends on Friday, 22¹⁰ March, 2024 at 5:00 p.m.

The cut-off date for determining the eligibility of members for remote E-voting and voting through poll at the AGM is Monday, 16th March, 2024.

- Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. Monday, 16th March, 2024 may obtain the user id and password by contacting, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi -110062, Phone No.: 011-29961281-83, Fax No.: 011-29961284, E-mail: beetal@beetalfinancial.com
- The members who cast their vote through remote E-voting may also attend the EGM butshall not be allowed to cast their vote at the EGM.
- The facility of voting through poll shall be available at theEGM to those members who have not casted their vote through remote E-voting.

The Notice is available at the company's website viz. www.padamcotton.com. Members may go through the e-voting instructions provided in the EGM Notice or may

refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting Manual for Shareholders at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting The results of e-voting on the resolutions set out in the Notice of the EGM shall be declared

within the permissible time under the applicable laws. The results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.padamcotton.com and on the website of Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the result shall also be communicated to the Stock Exchange i.e. BSE Limited. The results shall be displayed at the Registered at 196, 1" Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road, Kamal-132001, Haryana.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, AWing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East). Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

For Padam Cotton Yarns Limited

"FORM NO. INC-26"

(Pursuant to Rule 30 the Companies

(Incorporation) Rules, 2014)

Advertisement to be Published in the

Newspaper for Change of Registered Office

of the Company from One State to another

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT

(REGIONAL DIRECTOR) NORTHERN

REGION AT NEW DELHI

the matter of sub-section(4) of Section 13 of

Companies Act, 2013 and clause (a) of sub

rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of

CITYLOOK FASHIONS PRIVATE LIMITED Having its registered office at: M-3, South

Extension, Part-2, South Delhi, New Delhi-110049

Notice is hereby given to the General Public that

the company proposes to make application to the Central Government under section 13 of the

Companies Act, 2013 read with Rule 30 of the

Companies (Incorporation) Rules, 2014 seeking

onfirmation of alteration of the Memorandum of

Association of the Company in terms of the special

resolution passed at the Extra Ordinary General

Meeting held on 05th February, 2024 to enable

the company to change its Registered Office from

'NCT OF DELHI" to "STATE OF UTTAR

Any person whose interest is likely to be affected

by the proposed change of the registered office of the company may deliver either on the MCA-21

portal (www.mca.gov.in) by filing investor complain

form or cause to be delivered or send by registered

post of his/her objections supported by an affidavit

stating the nature of his/her interest and grounds

this notice with a copy to the applicant company

of opposition to the Regional Director (Northern Region), B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-110003, within fourteen days of the date of publication of

PRADESH".

3201.02

0.79

Petitione

Date: 14.02.2024 Place: Karnal

Radhika Gupta (Managing Director) DIN: 07071267

IMPORTANT

copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner

THE BIRLA COTTON SPINNING & WEAVING MILLS LTD.

Date: 14-FEB-2024

Place: Delhi

Corporate Identity Number: L65100DL1920PLC099621 Regd.Office: Hindustan Times House, Mezzanine Floor, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi 110 001

Phone: 011-66561206, Email: secretarial.ht@rediffmail.com, Website: www.birlacotton.com

EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2023 (Rs. in lakhs)

S.			Quarter end	ed	Nine Mon	ths ended	Year Ended
No.	Particulars	31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations (Net)	153	171	133	456	345	497
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, exceptional and extraordinary Items) #	141	158	123	421	312	451
3	Net Profit/(Loss) for the period before Tax (after exceptional and extraordinary Items) #	141	158	123	421	312	451
4	Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after exceptional and extraordinary Items) #	107	121	94	321	203	316
5	Total comprehensive income for the period (comprising Profit/*(-) Loss for the period (after tax) and other comprehensive Income (After tax)) *	903	215	209	1,635	365	590
6	Equity Share Capital	114	114	114	114	114	114
7	Earnings per share (of Rs. 10/- each) (for continuing operations-not annualised)	TOWNS.				0.700	
	Basic	9.40	10.55	8.22	28.10	17.74	27.64
	Diluted	9.40	10.55	8.22	28.10	17.74	27.64

PLACE: New Delhi

DATE: 14.02.2024

Particulars

Revenue from Operations

Profit(+)/Loss(-) before tax

items and tax

(not annulised)

each) (not annualised):

Basic Rs.

Diluted Rs

NOTES

No.

- The above unaudited Financial Results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 have been reviewed by the Audit Committee and approved and taken on record by the Board of Directors at their respective meetings held on February 14, 2024.
- 2 The Statutory Auditors have carried out a Limited Review of the above Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2023. 3 The above financial results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles as prescribed vide Ind AS 34 "Interim Financial Reporting".
- 4 i) Investment in shares (other than investment in Associates) have been measured and classified under "Fair Value through Profit & Loss as per option available under Ind-AS and Schedule III (Division-II) to the Companies Act. ii) Investments in Debt based Mutual Funds (held not for trading) have been measured and classified under "Fair Value through Profit & Loss.

5 The figures of the corresponding quarter have been regrouped / reclassified, whenever necessary to confirm to current quarter classification / presentation. The above is an extract of the detailed format of unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023, filed with the Stock Exchange under

Standalone

Quarter ended

Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the unaudited financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2023 along with review report of the Statutory Auditors is available on our website at www.birlacotton.com and under Financial Results at Corporate section of www.cse-india.com. For The Birla Cotton Spinning & Weaving Mills Ltd.

AHLUWALIA CONTRACTS (INDIA) LIMITED

Regd. Office: A-177, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi-110020. Un-Audited Standalone & Consolidated Financial Results for the quarter and nine months ended 31st December, 2023

1- The above results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at their meeting held on 13th February, 2024 and had undergone a 'Limited Review' by

the Statutory Auditor's of the Company. The standalone and Consolidated financial results has been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (IND-AS) prescribed under section 133 of

Consolidated

Quarter Ended

The Company does not have any exceptional and extraordinary items to report in above periods

(Virender Kumar Charoria) Director DIN 00046895

Standalone

Nine Months Ended

Date: 14.02.2024

DR. FRESH ASSETS LIMITED CIN: L74899DL1990PLC042302 Regd Office: B-1/E-24, Mohan Co-operative Industrial Area, New Delhi-110044

Website: www.drfreshassets.com, Email ID: drfresh@drfreshassets.com Extract of Standalone Un-audited Financial Results (Provisional) for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 (All figures are Rs in Lakhs except EPS)

Particulars 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 (Audited) (Reviewed) (Reviewed) (Reviewed) (Reviewed) (Reviewed) 22.9 Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptiona 22.74 27.58 48.79 131.67 230.26 131.80 22.74 27.58 48.79 131.67 230.26 131.80 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax 22.39 20.08 36.3 104.1 171.99 100.21 Exceptional and/or Extraordinary items (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) 114.55 247.88 49.55 545.23 403.99 256.29 and Other Comprehensive Income (after tax) 1077.91 077.9 1077.9 Other Equity 3476.3 0.19 0.21 0.33 Basic & Diluted (Rs.) 0.96 0.92

Extract of Consolidated Un-audited Financial Results (Provisional) for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2023 (All figures are Rs in Lakhs except EPS) **Particulars** ended ended ended ended ended ended 31.12.2023 30.09.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 (Reviewed) (Reviewed) (Reviewed) (Reviewed) (Audited 321.08 Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional 40.30 57.76 67.89 116.24 181.07 108.39 and/or Extraordinary items) Profit / (Loss) for the period before Tax (at 40.30 57.76 67.89 116.24 181.07 108.39 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after Tax (after 33.94 53.84 58.82 90.86 137.9 85.54 Exceptional and/or Extraordinary items) (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax) 250.80 536.66 368.46 230.37 Equity Share Capital 1077.91 1077.91 1077.91 1077.9 1077.91 1077.91

Basic & Diluted (Rs.)

(Rs. in Lakhs)

Year Ended

Consolidated

Nine Months Ended

1. The above is an extract of the detailed Quarterly Financial Results which have been adopted by the Audit Committee in their meeting held on 14.02.2024, approved by the Board of Directors in their meeting held on 14.02.2024 and reviewed by the statutory auditors and filed with the Stock Exchange under regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financials Results are available on the Stock Exchange Website i.e. www.mcx-sx.com and on the company's website i.e. www.drfreshassets.com

0.31

0.50

2. These financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standard (Ind AS) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015 and relevant amendment rules

3. Figures of the previous period and/or year have been regrouped or rearranged wherever considered necessary. 4. No of Investors Complaint received: Nil Disposed Off: Nil Pending: Nil

Place: New Delhi

Earnings per share (Face value of Rs. 10/- Fach

By Order of the Board For Dr. Fresh Assets Ltd

1.27

at its registered office at the address mentioned CITYLOOK FASHIONS PRIVATE LIMITED Registered office M-3, South Extension, Part-2 South Delhi, New Delhi-110049 (DL) IN For CITYLOOK FASHIONS PRIVATE LIMITED

Date: 15.02.2024 Manjeet Singh Alag Place: New Delhi Director Address: 10-B, Lajpat Kunj, Khandari

Crossing, Agra-282002 (U.P.) IN,

Vijay Prakash Pathak DIN-07081958

FRUITION VENTURE LIMITED

CIN No.: L74899DL1994PLC058824 Regd. Office: 1301, Padma Tower-1, Rajendra Place, New Delhi-110008

Tel. No.:+91-11-025710171 Website: www.fruitonventure.com Email Id: cs@fruitionventure.com Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the quarter and Nine Month ended 31st December, 2023

							(4 III Lakiis)
-		Q	uarter Ended		Nine Mor	th Ended	Year Ended
SI. No.	Particulars	31.12.2023 Unaudited	30.09.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.03.2023 Audited
1	Total Income from Operations	3.01	2.54	1.26	8.12	437.83	442.92
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and for Extraordinary Item)	2.13	-17.77	-4.69	-7.17	-8.31	-15.14
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and for Extraordinary items)	2.13	-17.77	-4.69	-7.17	-8.31	-15.14
4	Net Profit(Loss) for the period after tax (after Exceptional and /or Extraordinary items)	-0,36	-27.13	-4,49	-13.62	2.63	8.33
5	Total Comprehensive income for the period [Comprising of Profit/(Loss) for the period (After Tax) and other Comprehensive Income (After Tax)]	0.56	-23.12	-5.16	-5.64	-2.17	-4.61
6	Paid up Equity Share Capital (face value of Rs 10/- each)	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves as shown in the Balance sheet of previous year)	227.87	220.25	227.16	227.87	227.16	233.51
8	Earnings Per Share (EPS) (face value of Rs. 10/- each) for continuing and discontinued operations) Basic: Diluted:	-0.01 -0.01	-0.68 -0.68	-0.11 -0.11	-0.34 -0.34	0.07 0.07	0.21 0.21

a) The above is an extract of the detailed format of Quarter & Nine Months ended 31.12.2023 Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The Full format of the Quarter and Half Year ended Financial Results are available with Stock Exchange website www.bseindia.com.

b) There is no exceptional or extra-ordinary items during the reporting period

By order of the Board Fruition Venture Limited

> Nitin Aggarwal Managing Director DIN: 01616151

Place: New Delhi Date: 13.02.2024

Bikramjit Ahluwalia Chairman & Managing Director

On behalf of the Board of Directors

DIN NO. 00304947

Date: 14.02.2024 Place: Delhi

New Delhi

financialexp.epap.in

the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and relevant amendment rules thereafter.

2- The figures for the previous periods have been regrouped and / or reclassified wherever necessary to conform with the current period presentation.

3- Results are available at Company's website www.acilnet.com and also at BSE and NSE Websites www.bseindia.com & www.nseindia.com

30.09.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 31.12.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 unaudited unaudited unaudited unaudited unaudited unaudited unaudited unaudited unaudited Audited unaudited 102647.61 90154.92 74325.01 102647.61 90154.92 74325.01 269163.76 197534.08 269163.76 197534.08 283839.33 Profit/(Loss) before exceptional 9503.21 7419.10 6017.64 9502.20 7417.97 6016.32 23607.34 16411.58 23604.04 16408.18 26179.37 23540.29 9503.21 7419.10 6017.64 9461.28 7396.06 6011.75 23607.34 16411.58 16397.82 26165.38 Net Profit(+)/Loss(-) for the period 7066.27 5530.03 4500.15 7024.34 5506.99 4494.26 17569.58 17502.53 12181.20 19397.68 12194.96 Total Comprehensive Income 7095.75 5559.51 4530.61 7053.82 5536.47 17658.03 17590.98 19515.61 4524.72 12286.34 12272.58 Paid-up equity share capital (Face value of Rs. 2/- each) 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 1339.75 Earning per equity share (EPS) in Rupees (Face value of Rs. 2/-121493.43 28.96 10.55 8.26 6.72 10.49 8.22 6.71 26.23 18.20 26.13 18.18 10.55 8.26 6.72 10.49 8.22 6.71 26.23 18.20 26.13 18.18 28.96

दीपक स्पिनर्स लिमिटेड

CIN L17111HP1982PLC016465 पंजीकृत कार्यालयः 121 औद्योगिक क्षेत्र, बद्दी, तहसील नालागढ़ जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश- 173205

दूरभाष नं. 0172 2650973, 2650974, 2650977 वेबसाइटः www.dsl-india.com

ईमेलः puneeta.arora@dslindia.com र्डमेल पते का अद्यतन/पंजीकरण

कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) (इसके बाद सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में जाना जाएगा) द्वारा जारी नवीनतम सामान्य परिपत्र संख्या 9/2023 दिनांक 25 सितंबर, 2023 और एमसीए परिपत्रों दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020, 15 जून 2020, 28 सितंबर 2020, 31 दिसंबर 2020, 23 जून 2021 और 8 दिसंबर 2021 के अनुपालन में डाक मतपत्र नोटिस केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को भेजा जाएगा जिनके ई-मेल पते कंपनी/डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं और कंपनी की वेबसाइट www.dslindia.com और स्टॉक एक्सचेंज www.bseindia.com पर भी उपलब्ध होंगे।

एमसीए परिपत्रों के अनुपालन में नोटिस में निर्धारित प्रस्तावों को कंपनी के शेयरधारकों के लिए केवल ई–वोटिंग प्रक्रिया द्वारा डाक मतपत्र के माध्यम से अनुमोदन के लिए प्रस्तावित किया गया है।

ई-वोटिंग अवधि शुक्रवार, 8 मार्च 2024 को सुबह 9.00 बजे (आईएसटी) से शुरू और शनिवार, 6 अप्रैल

2024 को शाम 5.00 बजे (आईएसटी) पर समाप्त होगी। एक व्यक्ति जो कट ऑफ तिथि, शुक्रवार, 1 मार्च 2024 को कंपनी का शेयरधारक है, वह ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। योग्य सदस्यों से अनुरोध है कि वे कंपनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने केवाईसी विवरण अपडेट करें, ताकि पोस्टल बैलेट नोटिस सही ईमेल पते पर पहुंच सके। केवाईसी अपडेशन के लिए प्रासंगिक फॉर्म इस लिंक पर जाकर डाउनलोड किए जा सकते हैं- http://mdpl.in केवाईसी अपडेशन फॉर्म मूल रूप से रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट, मेसर्स माहेश्वरी डाटामैटिक्स प्राइवेट लिमिटेड

23. आरएन मुखर्जी रोड, 5वीं मंजिल, कोलकाता 700001 को जमा किए जाने चाहिए।

कृते दीपक स्पिनर्स लिमिटेड स्थानः चंडीगढ पुनीता अरोड़ा तिथिः 13.02.2024 कंपनी सचिव एफसीएस 7466

सार्वजनिक सूचना

कार्यदायी संस्था मैसर्स जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड द्वारा ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट संख्या बी-4(Pavillian Height & Pavillian Court), सैक्टर-128 की स्वीकृति दिनांक 29.11.2009 को प्राप्त की गई, तत्पश्चात सन्दर्भित योजना के भवन मानचित्र का पूर्नवैधीकरण दिनांक 25.11.2011, 30.11.2020 व 29.10.2021 को हुआ है, जिसके क्रम में ग्रुप हाऊसिंग पॉकेट संख्या-बी-04, (Pavillian Height & Pavillian Court) की Deed of Declaration (DoD) दिनांक 26.08.2015 को नोएडा प्राधिकरण में जमा कराया गया था। वर्तमान में कार्यदायी संस्था मैं0 जेपी इन्फ्राटेक लिमिटेड द्वारा उक्त Deed of Declaration (DoD)में संशोधन करने हेत् प्रार्थना पत्र दिया गया था। इसके सम्बन्ध में सूचित करना है कि सार्वजनिक सूचना प्रसारित होने के 15 दिन के अन्दर किसी भी कार्य दिवस में सुबह 9.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक अपार्टमेन्ट्स स्वामियों / रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन तथा उनके संघ से लिखित आपत्तियाँ आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तियाँ लिखित रूप में अथवा ऑन लाईन ईमेल आईडी captpnoida@gmail.com पर अपने आवंटन पत्र, नाम, पता, एवं दरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्य दिवस में नोएडा प्राधिकरण में स्थित महाप्रबन्धक (नियोजन) के कार्यालय में निर्धारित अवधि अर्थात सूचना प्रसारित होने के 15 कार्य दिवसों में प्राप्त कराई जा सकती है। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्ति / सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

महाप्रबन्धक (नियोजन)

PADAM COTTON YARNS LIMITED (CIN: L17112HR1997PLC033641)

Regd. Office: 196, 1st Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road, Karnal- 132001, Haryana

www.padamcotton.com Email: cspcyl6@gmail.com Tel: 8383858860

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting ("EGM") of the Members of M/s Padam Cotton Yarns Limited will be held on Saturday, the 23rd day of March, 2024 at 11:30 a.m. at Registered Office of the Company at 196, 1st Floor, G.T Road, Opp. Red Cross Market, Karnal- 132001 (Haryana), to transact the business mentioned in the Notice convening the Extraordinary of the Company.

In Compliance with section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations. 2015, the Company is providing E-voting facility to its members. to cast their vote electronically on the resolutions to be transacted at Extraordinary of the

In compliance with the relevant circulars, the Notice of the Extraordinary containing, interalia, the Explanatory Statement thereon has been sent via email on Thursday, February 15, 2024, to all the Members of the Company. The aforesaid documents are available on the Company's website at www.padamcotton.com and on the website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited at www.bseindia.com, and is also available on the website of RTA, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., beetal@beetalfinancial.com.

https://www.padamcotton.com/images/pdf/Notice%20of%20EGM.pdf

- The remote E-voting shall commence Wednesday, 20th March, 2024 at 10:00 a.m. and ends on Friday, 22" March, 2024 at 5:00 p.m.
- The cut-off date for determining the eligibility of members for remote E-voting and voting. through poll at the AGM is Monday, 16th March, 2024.
- Any person who becomes member of the Company after dispatch of notice of the meeting and holding shares as on cut-off date i.e. Monday, 16th March, 2024 may obtain the user id and password by contacting, M/s Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., Beetal House, 3rd Floor, 99, Madangir, Behind Local Shopping Centre, Near Dada Harsukh Dass Mandir, New Delhi -110062, Phone No.: 011-29961281-83, Fax No.: 011-29961284, E-mail: beetal@beetalfinancial.com.
- . The members who cast their vote through remote E-voting may also attend the EGM butshall not be allowed to cast their vote at the EGM.
- The facility of voting through poll shall be available at the EGM to those members who have not casted their vote through remote E-voting.
- The Notice is available at the company's website viz. www.padamcotton.com.
- Members may go through the e-voting instructions provided in the EGM Notice or may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) and E-voting Manual for Shareholders at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting @cdslindia.com.

The results of e-voting on the resolutions set out in the Notice of the EGM shall be declared within the permissible time under the applicable laws. The results declared along with the report of the Scrutinizer shall be placed on the website of the Company www.padamcotton.com and on the website of Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd., immediately after the declaration of result by the Chairman or a person authorised by him and the result shall also be communicated to the Stock Exchange i.e. BSE Limited. The results shall be displayed at the Registered at 196, 1" Floor, Opp. Red Cross Bhawan, G.T. Road, Karnal-132001, Haryana.

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25" Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N.M. Joshi Marg, Lower Parel (East) Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

> For Padam Cotton Yarns Limited Sd/-

Date: 14.02.2024 Place: Karnal

(Managing Director) DIN: 07071267

Radhika Gupta

इाक्वटास स्माल फाइनस बक लामटड equibas

(पूर्व में इक्विटास फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

पंजीकृत कार्यालयः नंबर 769, स्पेंसर प्लाजा, चौथी मंजिल, फेज-II, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600002

कब्जा सूचना (नियम 8(1) के अंतर्गत - अचल संपत्ति के लिए) जबिक अधोहस्ताक्षरी मैसर्स इविवटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, कं प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन के तहत ख्अधिनियम, 2002 (2002 का 54), और खनियम 3, के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयो करते हुए सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 ने एक डिमांड नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीर से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित कुल बकाया राशि चुकाने का आह्वान किया गया। चूंकि नीचे उल्लिखित उधारकर्ता निर्धारित समय के भीत नीचे बताई गई राशि चुकाने में विफल रहे हैं, इसलिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि, अधोहस्ताक्ष ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित उत्त अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (4) के तहत विशेष रूप से उधारकर्ताओं और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि वे अनुसूची उल्लिखित संपत्तियों और किसी भी लेनदेन न करें संपत्तियों के साथ मैसर्स इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड और उस पर अतिरिक्त ब्याज औ अन्य शुल्क के प्रभार के अधीन होगा।" सुरक्षित संपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 31 की उप–धारा (८) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।"

क्रं. सं.	उधारकर्ता / गारंटर का नाम	सुरक्षित संपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	मांग सूचना की तिथि और राशि	प्रतीकात्मक कब्जा लेने की तिथि
1	शाखा — भीलवाड़ा ऋण संख्या — SEBLWAR0268510 उधारकर्ता — श्री रतन सह—उधारकर्ता — श्रीमती लहरी बैरवा	सह—आवेदक 1: लहरी बैरवा। गैर—कृषि संपत्ति के वे सभी टुकड़े और पार्सल, जो आवासीय संपत्ति हैं, निवासी मकान नंबर 32, शंभू खेड़ा, शंभू खेड़ा — गांव, सालरिया कला — ग्राम पंचायत, बनेड़ा — पंचायत समिति और तहसील, भीलवाड़ा (राजस्थान) जिले 311401 में स्थित हैं। क्षेत्रफल 1518 वर्ग फुट, सभी वर्तमान और भविष्य की अधिरचना के साथ और उस पर घिरा हुआ, उत्तरः आम सड़क, दक्षिण में: सुखा बैरवा का घर, पूर्व में: नानू राम बैरवा का घर, पिश्चमः कॉमन रोड,मापः 1518 वर्ग फुट, संपत्ति के ऋण समझौते—सह—बंधक के तहत बनेड़ा के उप—पंजीकरण जिले और भीलवाड़ा (राजस्थान) के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है। वर्तमान और भविष्य दोनों में पृथ्वी से जुड़ी या स्थायी रूप से पृथ्वी से जुड़ी किसी भी चीज से जुड़ी सभी इमारतों और संरचनाओं के साथ और सभी ईजामेंटरी / इस के सिवा मामूल अधिकार संलग्न हैं	05—06—2023 और 235383	13.02.2024
2	शाखा — चित्तौड़गढ़ ऋण संख्या — SECITOR0318068 उधारकर्ता — श्री लक्ष्मण लाल नायक सह—उधारकर्ता — श्रीमती पुष्पा बाई	गैर—कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल आवासीय संपत्ति हैं, जो आबादी आराजी संख्या 3059 / 1450 गांव — भीमगढ़ ग्राम पंचायत भीमगढ़ पंचायत सिमित राशमी तहसील राशमी जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) 312203 (क्षेत्रफल 2600 वर्ग फीट) पर स्थित है। - (उस पर सभी मौजूदा अधिरचना के साथ उक्त संपत्ति के चार कोनेः पूर्वः आम सड़क, पश्चिमः मिठूलाल / चंपालाल नायक, उत्तरः दलू पुत्र नंदा जी नायक, दक्षिणः चोगा / प्रताप नायक उप—पंजीकरण जिले के राशमी और पंजीकरण जिला चित्तौड़गढ़ (राजस्थान) भीतर स्थित है	07—09—2023 और	12.02.2024
3	शाखा — श्रीगंगानगर ऋण संख्या — SESGGNR0215005 उधारकर्ता — श्री मदत अली सह—उधारकर्ता — श्रीमती नजमा	आवेदकः मदत अली गैर—कृषि संपत्ति के सभी टुकड़े और पार्सल, आवासीय संपत्ति, जिसका पट्टा संख्या 69 है, ग्राम खैरुवाला, तहसील सादुलशहर, जिला श्री गंगानगर में स्थित है, माप क्षेत्र 2867 वर्ग फुट/318.555 वर्ग गज है, सभी वर्तमान और भविष्य के अधिरचना के साथ उस पर. उत्तर में: ताज मोहम्मद दक्षिण में: ओम प्रकाश पूर्व में: रोड पश्चिम में: यूसुफ खान माप: 2867 वर्ग फुट उप—पंजीकरण जिले, सादुलशहर और श्री गंगानगर के पंजीकरण जिले के भीतर स्थित है।	06—11—2023 और 506042	09.02.2024
दिनांक	श्रीमती नजमा 5 – 15.02.2024, स्थान – र		टास स्मॉल फाइन	सि बैंक लि

डा. फ्रेश एसेटस लि. CIN: L74899DL1990PLC042302 पंजी. कार्यालयः बी-1/ई-24, मोहन को-ऑपरेटिच, इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली-110044 चेबसाइंट: www.drfreshassets.com, ईमेल आईडी: drfresh@drfreshassets.com 31 दिसम्बर, 2023 को समाज विमाही वजा नौमाही के लिये स्टैंडएलॉन अनेकेक्शित विशीय परिणामों (अनेविम) का सार

30.	विसम्ब	stated to albi	menen inenen	Menter Inviter	Males aless	stated analyt	mental ora
₩.	29.90(3)	३१.13.2823 (समीक्षित)	10 09 2015 (समीक्षित)	31.12.2332 (समीधित)	31,12,2023 (समीक्षित)	31.13.3892 (समीक्षित)	31.63.2033 (ਲੇਗਾਪਰੋਡਿਤ)
1	परिचलने में बुल आव	25.39	22.37	31,13	76.45	277.84	204.46
2.	अवधि के लिए शुद्ध लामः (शनि) (कर, विशिष्ट एवं अवधा अलधारम मदौ से पूर्व)	22.74	27.58	49.79	181.67	235.26	191.80
ð.	कर से पूर्व अविष के लिए सुद्ध लाफ (शाँन) (विशिष्ट एवं/अववा असावारण मही के बाद)	21.74	27.16	43.79	131.07	230.26	151.60
	कर से बाद अवधि के लिए शुद्ध लाभः (हानि) (विकिन्द एवं अबवा असाधारण मदी के बाद)	22.59	20.46	99.31	104.14	171.69	100.21
5.	अवधि हेतु कुल ज्यापक आप (अवधि हेतु (कर के बाद) लाग/ (हानि) एवं अन्य व्यापक आप (कर के बाद) से शामिल)	114.65	247.86	49.55	545.21	403.99	254.29
6	इंक्सिटी शेष्य पूजी	1027.91	1077.91	1027.81	1577.91	7077,91	7077.91
	अन्य इंक्विटो	1,000,000				11107511	3476,31
E.	अब प्रति शैका (त. 10/- प्रति का अभिन मूल्य) वैधिक एवं बाइल्यूटेव :	0.21	0.19	0.88	0.94	1.50	0.62

丣.	विकरण	समाप्त तिमारी	लमाप्त तिमाही	समाज तिमाही	समाज नीमाही	समाप्त नीमाही	समाज वर्ष
सं.	Paratri	31.12.2923 (क्योडिन)	10.09.2333 (समीक्ति)	31.12.2322 (समीक्षित)	11,12,2021 (समीक्षित)	31.12.2022 (समीक्षित)	31,00,2023 (ਅੰਗਰਸ਼ੀਜ਼ਿਕ)
1.	परिचालने से कुल आव	118.64	151.29	94.87	121.05	4.37,59	530,42
2.	अर्थाध के लिए शुद्ध लाभः (शनि) (कर, विशिष्ट एवं अधवा असध्याल मदी से पूर्व)	40.50	57.76	67.89	116.24	181.07	103.39
8.	कर से पूर्व अवधि के लिए सुद्ध लाभः (ब्रामि) (विकिन्ट एवं/अववा असावारण मदी के बाद)	40.30	57.76	67.89	116.24	181.07	100,20
	वन से बाद अवधि के लिए शुद्ध लागः (शानि) (वितिष्ट एवं अथव असाधारण मदी के बाद)	33.64	59.84	59.42	90.86	107.01	85.54
5.	अवधि हेतु भुल व्यापक आप (अवधि हेतु (कर के बाद) लाग/ (हानि) एवं अन्य च्यापक आप (कर के बाद) में हामिल)	121.27	252.80	47.79	336.66	358.49	209.37
6	इकियरी शेख पूजी	1077.91	1077.91	1077.61		1077.91	1077.91
7	अन्य इक्विटी			15.55			3203.42
	अब पति कोरर (२. १८/- पति का अधिन कृत्य) वेसिक एवं डाइल्यूटेंड :	0.31	0.50	0.54	086	1.27	0.79

उपरोक्त पिरतत तिमाही वितीय परिणामों का सार है जिसे 14.02.2024 को आयोजित उनकी बैठक में ऑडिट कमिटी हारा अनुमोदित किया गया तथा 14.02.2024 को आयोजित उनको बैठक में निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत किया गया तथा सांविधिक ऑडिटरों द्वारा समीधा की गई तथा सेबी (सुचीवन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सपैंज में दाखिल किया गया। तिमाही विश्वीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सपैंज की चेक्साईट अर्थात् www.mcx-sx.com तथा कम्पनी की

- वेबसाईट अर्थात् www.drfreshassets.com पर उपलब्ध है। ्डन विजीय परिणामों को कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियमायली, 2015 के नियम 3 तथा उत्तके याद संबंधित संशोधन नियमायली के साथ पंडित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानक (इंड ए एस) के अनुसार तैयार किया गवा है।
- जहां भी जरूरी हुआ, पूर्व अयिष एवं/अयवा वर्ष के आंकड़े पुनर्वगीकृत अथवा पुनर्व्ववस्थित किए गए हैं।
- कोई निवेशक शिकायत प्राप्त नहीं, शुन्य का निपटारा, शुन्य शिकायत लम्बित है।
- दो सहायक कंपनियों के संबंध में लगातार घाटा होने के कारण इन कंपनियों की नेटवर्ष घट गई है। हालांकि, प्रबंधन किसी भी व्यवहार्य परियोजना को शुरू करने की संभावना तलाश रहा है और खातों को गोइंग कंसनें के आधार पर तैयार किया गया है। तिमारी के दौरान कंपनी ने 1:1 के अनुपात में योनस इत्यू (रिकॉर्ड दिनांक 07.10.2023) के माध्यम से 10/- रुपये प्रत्येक के 53,89,553 इक्विटी शेयर आयटित किए। तदनुसार
- पिछली अवधि के लिए ईपीएस, वर्ष समायोजित किया गया है। बोर्ड के आदेश से

डा. फ्रेज एसेट्स लि. के लिए

विजय प्रकाश पाटक

पूर्णकालिक निदेशक

DIN: 07081958

(इंपीएस को छोड़कर सभी आकड़े ह. लाखी में)

स्थानः नई दिल्ली सिधि: 14.02.2024

कैलकॉम विजन लिमिटेड

ईमेल आईडी: corp.compliance@calcomindia.com | वेबसाइट: www.calcomindia.com संपर्क नंबर-0120-2569761

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ महीनों के लिए अलेखापरीक्षित

वित्तीय परिणामों के उद्धरण (प्रति शेयर डेटा को छोड़कर लाखों रुपये में)

क्रं.	विवरण		समाप्त तिमाही		समाप्त	समाप्त वर्ष	
सं.		31.12.2023 (अन–आडिटेड)	30.09.2023 (अन-ऑडिटेड)	31.12.2022 (अन–ऑडिटेड)	31.12.2023 (अन—ऑडिटेड)	31.12.2022 (अन-ऑडिटेड)	31.03.2023 (ऑडिटेड)
to.	संचालन से कुल आय	4111.75	3921.70	4419.32	11357.53	11352.76	16095.09
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाम / (हानि) (कर, असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं से पहलेः)	9.08	6.01	245.54	71.95	557.21	807.54
3,	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ / (हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बादः)	9.08	6.01	245.54	71.95	557.21	807.54
4.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाम /(हानि) (असाधारण और/या असाधारण वस्तुओं के बादः)	3.64	4.50	183.74	50.69	416.97	564.62
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [इस अवधि के लिए लाभ / (हानि) (कर के बाद) और अन्य व्यापक आय शामिल है	27.39	20.52	199.57	108.62	465.93	640.53
6.	इक्विटी शेयर पूंजी (प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 10 / –)	1345.65	1345.65	1279.18	1345.65	1279.18	1279.18
7	पुनर्मूल्यांकन रिजर्व को छोड़कर रिजर्व	700000000				0	2208.33
8	प्रति शेयर आय (रु. 10 / — प्रत्येक) (जारी और बंद परिचालन के लिए) —						
	बेसिक	0.03*	0.03*	1.44*	0.38*	3.27*	4.42
7	तरल	0.03*	0.03*	1.40*	0.37*	3.19*	4.32

उपरोक्त सेबी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंज में दायर किए गए त्रैमासिक वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। विस्तृत त्रैमासिक परिणामों की समीक्षा ऑडिट समिति द्वारा की गई और बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई। 13.02.2024 को आयोजित बैठक में निदेशकों की बैठक वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट यानी www.bseindia.com और कंपनी की वेबसाइट यानी www.calcomindia.com पर भी उपलब्ध हैं।

> बोर्ड की आदेशानुसार कैलकॉम विजन लिमिटेड के लिए एस के मलिक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

PAISALO EASY LOAN आसान लोन

दिनांकः 13 फरवरी, 2024

स्थानः ग्रेटर नोएडा

पैसालो डिजिटल लिमिटेड (पूर्ववर्ती एस० ई० इन्वेस्टमेन्ट्स लि०)

CIN No- L65921DL1992PLC120483

पंजीठ कार्याठ सीठएस०सीठ पॉकेट-52, पुलिस स्टेशन के पास, सीठआरठ पार्क, नई दिल्ली-110019 शाखा कार्यालयः प्लॉट नं० 451, चतुर्थ तल, सन्नी मार्ट, आतिश मार्केट, मानसरोवर, जयपुर-302020 (राज०) दूरमाषः 9314142990 ई-मेलः legal@paisalo.in

नोटिस अन्तर्गत धारा 13(2) सरफेसी अधिनियम, 2002

 ऋणधारीः मै० शीतल बिल्डडेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड, ४१, कृषि नगर, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर-302011 (राज०). ऋणधारी / बंधककर्ता /

 गारण्टर्स / बंधककर्ताः (1) श्री रामफूल मीणा पुत्र श्री श्योजी राम मीणा निवासी प्लॉट नं० 21, कृषि नगर, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर-302011 (राज०) (2) श्रीमती सविता भीणा पत्नी श्री रामफुल भीणा निवासी प्लॉट नं० 21. कृषि नगर. बुद्धसिंहपुरा, जयपुर—302011 (राज०) **(3) श्री श्योजी राम मीणा** पुत्र श्री राम चन्द मीणा निवासी प्लॉट नं० 21, कृषि नगर, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर-302011 (राज०) (4) श्री कमल किशोर पुत्र श्री कानाराम निवासी 5, गोकुल विहार, एयरपोर्ट, सौँगानेर, वार्ड नं० २८, जयपुर-302011 (राज०)

ऋण खाता सं बंधकशुदा

सम्पत्ति का विवरण

गारंटर्स

। श्री रामफूल मीणा (गारण्टर / बंधककता) का एक आवासीय भूखण्ड स्थित प्लॉट नं० ४१, कृषि नगर, जगतपुरा रोड, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर जिसका क्षेत्रफल 272.22 वर्गगज जिसकी सीमाएँ उत्तर- 200 फीट रास्ता, पुरब- प्लॉट नं० 42, दक्षिण- 30 फीट चौडा रोड. पश्चिम- प्लॉट नं० 40 हैं।

- 2. श्री रामफूल मीणा (गारण्टर / बंधककर्ता) का एक आवासीय भूखण्ड स्थित प्लॉट नं० 48, कृषि नगर, जगतपुरा रोड, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर जिसका क्षेत्रफल 196.38 वर्गगज जिसकी सीमाएँ उत्तर- प्लॉट नं० 45, पूरब- प्लॉट नं० 21, दक्षिण- प्लॉट नं० 47, पश्चिम- रास्ता 30 फीट हैं।
- 3. श्री रामफुल मीणा (गारण्टर / बंधककर्ता) का एक आवासीय भूखण्ड रिथत प्लॉट नं० 21, कृषि नगर, जगतपुरा रोड, बुद्धसिंहपुरा, जयपुर जिसका क्षेत्रफल 194.44 वर्गगज जिसकी सीमाएँ उत्तर- प्लॉट नं० 22, पूरव- 30 फीट चौड़ा रोड, दक्षिण- प्लॉट नं० 20, पश्चिम- प्लॉट नं० 48 हैं।

डिमाण्ड नोटिस जारी करने की दिनांक 24-01-2024 बकाया धनराशि दिनांक 17.01.2024 तक ₹50 1.19.96.326/-

- यह कि उक्त ऋणधारी ने वजरिए हाईपोथिकेशन / ऋण अनुबन्ध दिनांकित 22.08.2014 मुझ प्राधिकृत अधिकारी की उक्त कम्पनी से ऋण प्राप्त किया था। ऋण की अदायगी में व्यतिक्रम कारित किया गया और दिनांक 30.09.2016 को उक्त ऋण खाता अपालनीय आरित (एनपीए) हो गया जिसके बावत दिनांक 17.01.2024 तक कुल रु० 1,19,96,326 / - (रूपए एक करोड़ उन्नीस लाख छियानवे हजार तीन सौ छब्बीस मात्र) की धनराशि आपके प्रति बकाया है।
- 2. यह कि ऋण अदायगी को सुरक्षित करने हेतु ऋणधारी / बंधककर्ता एवं गारण्टर्स ने गारण्टी अनुबन्ध दिनांकित 22.08.2014 निष्पादित किए थे जिसके द्वारा ऋणधारी एवं गारण्टर्स उक्त ऋण की अदायगी के लिए संयुक्त एवं पृथक रूप से उत्तरदायी हैं।
- 3. यह कि ऋण की सुरक्षित अदायगी हेत् बंधककर्ता / गारण्टर श्री रामफुल मीणा ने अपनी उक्त अचल सम्पत्ति को हमारी कम्पनी के पास
- 4. यह कि ऋण की सम्पूर्ण अदायगी होने तक आप सभी उक्त अचल सम्पत्ति अथवा कोई भी अन्य बंधकशुदा सम्पत्ति को हमारी कम्पनी की लिखित सहमति के बिना किसी भी रूप में अन्तरित, निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं और न ही पटटे पर दे सकते हैं।
- 5. यह कि उक्त बकाया धनराशि की अदायगी हेतु हमारी कम्पनी ने एक सूचना पत्र दिनांकित 24.01.2024 उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत आपको जरिए स्पीड पोस्ट प्रेषित किए थे जिनमें से ऋणधारी / बंधककर्ता का नोटिस हमारी कम्पनी को "नो सच पर्सन" के रिमार्क के साथ वापस प्राप्त हुए इसलिये यह नोटिस अखबार में प्रकाशित किया जा रहा है।

अतः वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(12) संपठित धारा 2 (नियम 3) सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के तहत मुझ प्राधिकृत अधिकारी को प्राप्त शक्तियों के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के जरिए उक्त वर्णित ऋणधारी / बंधककर्ता एवं गारण्टर्स से यह अनुरोध किया जाता है कि इस नोटिस के प्रकाशन से 60 दिवस की अवधि के अन्दर उपरोक्त बकाया धनराशि का भूगतान संयुक्त अथवा पृथक रूप से हमारी कम्पनी को कर दें अन्यथा आपके विरूद्ध अन्तर्गत धारा 13(4) के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों के तहत बंधकशुदा सम्पत्ति का कब्जा लेकर उसे ऋण वसूली हेतु नीलामी के जरिए विक्रय, पट्टा, समनुदेशन द्वारा अन्तरण कर दिया जाएगा जिसके समस्त हर्जे-खर्चे की जिम्मेदारी आपकी होगी।

सुरक्षित परिसम्पत्तियों को भुनाने के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप धारा 8 के तहत भी ऋणधारी / बंधककर्ता एवम् गारण्टर्स का ध्यान आकर्षित किया जाता है. जिसके अन्तर्गत निर्धारित अवधि में आप कम्पनी की बकाया धनराशि की अदायगी कर अपनी परिसम्पत्तियों को वापस प्राप्त कर सकते हैं।

इस नोटिस के माध्यम से ऋणधारी / बंधककर्ता एवं गारण्टर्स व आमजन को भी सूचित किया जाता है कि वह हमारी कम्पनी मैसर्स पैसालो डिजिटल लिमिटेड की भारशुदा (जिसमें उक्त वर्णित बकाया राशि, ब्याज व अन्य खर्चे सम्मिलित हैं) उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी भी

प्रकार का क्रय अथवा विक्रय न करें। यह नोटिस हमारी कम्पनी के पास उपलब्ध अन्य उपचारों पर किसी भी प्रतिकृत प्रभाव के बिना है।

दिनांकः 14.02.2024

स्थानः जयपुर

(सत्यप्रकाश शर्मा), प्राधिकृत अधिकारी पैसालो डिजिटल लिमिटेड

(रु. लाख में)

एमपीडीएल लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय : यूनिट नं. 12, जीएफ, मैग्नम टॉवर, सेक्टर-58, गुरुग्राम-122011 पंजीकृत कार्यालय : 11/7, मथुरा रोड, सेक्टर-37, फरीदाबाद-121003 , (हरियाणा) दूरभाष नं. : 0124-422234-35, ई-मेल आईडी : isc_mpdl@mpdl.co.in वेबसाइट : www.mpdl.co.in, सीआईएन : L70102HR2002PLC007001

ar.		_						प्रति शेवर डाटा को छोड़कर रू. लाख में समेकित						
17.		स्टैण्डएलीन समाप्त तिमाठी समाप्त नौमाठी सर					समाज वर्ष		समाप्त तिमाही	Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Own		नीमाठी	समाप्त वर्ष	
	विद्यत्य	31.12.2023	30.09.2023 arbarottka	The second second	31.12.2123 amention	31.12.2322 arituration	0.00	Charles Annual Control of	30.09.2023 arterofiles	PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA	31,12,2023 arter/filer	THE REAL PROPERTY.	31.03.202 mention	
1 2	प्रचालनों से कुल आब (निवल) अवधि हेतु निवल लाग/(हानि) (कर, अपवादित लग/अधवा	222.43	136.60	363.11	512.69	815.78	434.78	165.93	321.93	782.10	821.56	1,556.30	1,419.26	
3	असाधारण मदों से पूर्व) कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाध/(हानि) (अपवादित	(108.11)	2.561.33	(148,15)	2,417.04	(320.68)	251.94	(130.97)	2.559.20	(146.22)	2,200:10	(523.98)	(135.09)	
	तथा/अथवा आयथारण मदों के बाद) कर पश्चात अवधि हेतु नियस साध/(हानि) (अस्पादित	(156.11)	2.561,33	(148.19)	2,417.84	(320.68)	251.94	[130.97]	2,559.20	(146.22)	2.200.10	(523.98)	(239.99)	
5	রখা/এখনা প্রারখ্যতে মহাঁ ক নাহ) একাথ উনু কুল আদক আদ (প্রকাথ উনু লাম/(রানি)	(50.11)	2,440,43	(148,19)	2,324.14	(320.68)	349.48	(102.97)	2,438,30	(146.22)	2,107.20	(523.98)	(384.64)	
	(कर पश्चात) तथा अन्य ज्यापक आय (कर पश्चात) से [नर्मित]	(50.11)	2 440 43	(148.15)	2,324.14	(320.68)	348.95	[182.97]	2,440.51	(146.22)	2 109:40	(526.74)	(517.89)	
6	आरक्षितियाँ (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर) जैसा कि गत वर्ष के लेखापरीक्षित	1767 76				Vernie.				,			11102221	
7	तुलन-पत्र में प्रदर्शित हैं. इक्किटी शेवर पूंजी (७. १०/– प्रत्येक का अंकित मृल्य)						4,835.39	-	*		(#)		8,617,19	
B	आव प्रति शेयर (ह. 10/- प्रत्येक के) (सतत तथा असतत प्रचालनी हेनु)-	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	741.25	
	(क) वेसिक (ख) डाइल्य्टेड	(1.G8) (1.G8)	32.92 32.92	(2.00)	31.35 31.35	(4.33) (4.33)	4.71 4.71	(1.39)	32.62 32.62	(1.97) (1.97)	28.43 28.43	(7.07) (7.07)	(5.16) (5.16)	

स्थान : गुरुग्राम

तिथि : 13.02.2024

www.readwhere.com

- 1. उपरोक्त वित्तीय विवरणों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा 13.02.2024 को हुई अपनी बैठक में की गई है और फिर 13.02.2024 को हुई अपनी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित की गई है। 31.12.2023 को समाप्त तिमाही के परिणाम लेखापरीक्षकों के सीमित समीक्षा के अधीन थे।
- 2. 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2022 को समाप्त तिमाही के आंकड़े 30 सितंबर 2023 और 30 सितंबर 2022 को समाप्त अवधि के अलेखापरीक्षित आंकड़ों को क्रमण: 31 दिसंबर 2023 और 31 दिसंबर 2022 को समाप्त अवधि के अलेखापरीक्षित आंकड़ों से घटाकर निकाले गए हैं।
- 3. समेकित विश्वीय परिणामों में पिछली अवधि के आंकड़े तुलनीय नहीं हैं क्योंकि कैम्ब्रिज कंस्ट्रक्शन (दिल्ली) प्राइवेट लिमिटेड 26 सितंबर, 2023 से सहायक कंपनी नहीं रही। परिणामस्वरूप कैम्ब्रिज कंस्ट्रक्शन (दिल्ली) प्राडवेट लिमिटेड एमपीडीएल लिमिटेड की एसोसिएट कंपनी बन गई है (48,98% इक्विटी शेयर पूंजी धारित करती है)।
- अन्य आय में इस अवधि के दौरान निवेश की बिक्री पर प्राप्त 2581.20 लाख रुपये शामिल हैं।
- पिछली अवधि/वर्ष के आंकड़े, जहां आवश्यक हो, उन्हें तुलनीय बनाने के लिए पुनः समृहित/पुनर्वगीकृत किया गया है।
- 6. उपरोक्त सेबी (सुचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल तिमाही परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। तिमाही वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.bscindia.com) और कंपनी की वेबसाइट www.mpdlco.in पर उपलब्ध है।

कृते एमपीडीएल लिमिटेड राजेश पालीवाल

दि बिरला कॉटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लि. निगमित पहचान संख्या : L65100DL1920PLC099621

पंजी. कार्या: हिंदुस्तान टाइम्स हाउस, मेजानाइन तल, 18-20, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110 001 दूरभाष नं. 011–66561206, ई–मेल : secretarial.ht@rediffmail.com, वेबसाइट : www.birlacotton.com

31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश

豖. विवरण समाप्त तिमाही समाप्त नौ माह समाप्त वर्ष सं 30.09.2023 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022 31.03.2023 अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित अलेखापरीक्षित लेखापरीक्षित परिचालनों से कुल आय (निवल) 153 171 133 456 345 497 अवधि हेत् निवल लाभ / (हानि) (कर, आपवादिक एवं असाधारण मदों से पूर्व)# 141 158 123 421 312 451 3 कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाम/(हानि) (आपवादिक एवं असाधारण मदों के उपरान्त)# 141 158 123 421 312 451 कर उपरान्त अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं 107 121 321 203 316 असाधारण मदों के उपरान्त)# अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु लाभ/*(--) हानि (कर उपरान्त) तथा अन्य व्यापक आय (कर उपरान्त) से समाविष्टी * 903 215 1,635 365 590 209 114 114 114 114 समता अंष पूंजी 114 114 आय प्रति अंष (रु. 10 /- प्रत्येक का) (परिचालनरत् परिचालनों हेतु – अवार्षिकीकृत) 9.40 10.55 8.22 28.10 17.74 27.64 तरलीकृत 10.55 8.22 28.10 17,74 27.64 9.40

टिप्पणियाँ :

स्थान : नई दिल्ली

निदेशक

दिनांक : 14-02-2024

- 1. दिनांक 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के तपरोक्त अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की समीक्षा, लेखापरीक्षण समिति द्वारा की गई है तथा निदेशक मण्डल द्वारा 14 फरवरी 2024 को
- आयोजित अपनी संबंधित बैठकों में इनका अनुमोदन एवं अभिलेखन किया गया है।

कंपनी के पास उपरोक्त अवधियों में प्रतिवेदन हेत् कोयी भी आपवादिक एवं असाधारण मद नहीं है।

- 2. सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा विनांक 31 विसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के उपरोक्त वित्तीय परिणामीं की एक सीमित समीक्षा की गई है।
- 3. उपरोक्त वित्तीय परिणामों को आईएनडी एएस 34 "अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदनीकरण" द्वारा निर्धारितानुसार मान्यता एवं मापन सिद्धांतों के अनुरूप तैयार किया गया है। 4. i) अंबों में निवेष (एसोबिएट्स में निवेष के अतिरिक्त) को कंपनी अधिनियम के आईएनडी-एएस एवं अनुसूची ||| (डिवीजन-||) के अंतर्गत उपलब्ध विकल्पानुसार लाभ एवं हानि के माध्यम से "उचित
- मृत्य'' के अंतर्गत मापित एवं वर्गीकृत किया गया है। ii) ऋण आधारित म्यूचुअल फंड्स (व्यापार हेल् असंघटित) में निवेष को लाभ एवं हानि के माध्यम से "उचित मूल्य" के अंतर्गत मापित एवं वर्गीकृत किया गया है।
- 5. तदनुरूपी तिमाही के आंकडों को, जहां कहीं अनिवार्येता हुई, वहां—बहां चालू तिमाही वर्गीकरण 🗸 प्रस्तुतिकरण की अभिपृष्टि के अनुसार, पुनर्समृहित 🖊 पुनर्वर्गीकृत किया गया है।
- 6 उपरोक्त सारांश, सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवध्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास फाइलबद्ध, 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश हैं। दिनांक 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नी माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, साविधिक

लेखापरीक्षकों के संमीक्षा प्रतिवेदन के साथ, हमारी वेबसाइट (www.birlacotton.com) और कॉर्पोरेट सेक्पन में वित्तीय परिणामों के अंतर्गत वेबसाइट (www.cse-india.com) पर उपलब्ध है।

कृते दि बिरला कॉंटन स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स लिमिटेड (विरेन्द्र कुमार चरोरिया) बीआईएन : 0004689



नर्ड दिल्ली





